

SEVEN

QUICK
&
EASY

Ways To Eat

हिन्दी भाषा में



MYFITNESS
PEANUT BUTTER

www.myfitness.co.in



साहील खान की ओर से मेसेज

प्रिय ग्राहक

आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने **MYFITNESS** पीनट बटर को अपने स्वास्थ्य के लिए चुना। हमने कड़ी मेहनत की है, ताकि आपको हमारा **MYFITNESS** पीनट बटर पसंद आए।

हम आशा करते हैं कि आप इसका पूरा आनंद लेंगे। आपका शुक्रिया अदा करने के लिए यहां **MYFITNESS** पीनट बटर का उपयोग करने के 7 बेहतरीन विकल्प हैं।

आपकी खुशी में ही हमारी सफलता है। अगर आपको हमारा **MYFITNESS** पीनट बटर पसंद आए तो कृपया आपके विचार हमें भेजे।

धन्यवाद

साहील खान



MYFITNESS
PEANUT BUTTER

www.myfitness.co.in





MYFITNESS

पीनट बटर

ब्रेड या रोटी के साथ

- अपनी ब्रेड या रोटी पर
स्वादीस्ट और स्वस्थ
MYFITNESS पीनट बटर लगाए ।
- अगर चाहे तो सुखा मेवा जैसे बदाम,
काजू विंगेरे डाल सकते है ।



MYFITNESS
PEANUT BUTTER

www.myfitness.co.in



MYFITNESS

पीनट बटर

बनाना स्मूथी



- १ केला
- २ कप दूध
- १.५ चम्मच **MYFITNESS** पीनट बटर
- थोडा बर्फ
- वे प्रोटीन (चाहे तो)
- कोको पावडर (चाहे तो)

सभी सामग्री मिलाए,
और ब्लेन्ड करे



MYFITNESS
PEANUT BUTTER

www.myfitness.co.in



MYFITNESS

पीनट बटर

फ्रूट डीप



कुछ ताजा फलो को काटे

और स्वादिष्ट और स्वस्थ

MYFITNESS पीनट बटर के साथ

या उसमें डुबा कर मजा उठाए ।

 **MYFITNESS**
PEANUT BUTTER

www.myfitness.co.in





MYFITNESS

पीनट बटर

ओटमील



पके हुए ओट्स या दलीए में
स्वादिस्ट और स्वस्थ

MYFITNESS पीनट बटर अच्छे से
मिलाए, उपर से कुछ केले के
टुकड़े डाले और मजा उठाए ।



MYFITNESS
PEANUT BUTTER

www.myfitness.co.in



MYFITNESS

पीनट बटर

सेलेड ड्रेसिंग



आपकी पसंदीदा सब्जियां छोटे टुकड़ों में
कांटे और उसमें स्वादिष्ट और स्वस्थ
MYFITNESS 100% नेचरल पीनट बटर मिलाए,
और अपने सेलेड का भरपूर आनंद उठाए ।



MYFITNESS PEANUT BUTTER

www.myfitness.co.in



MYFITNESS

पीनट बटर



आइसक्रिम

- एक स्कूप वेनीला आइसक्रिम ।
- एक चम्मच स्वादिष्ट और स्वस्थ **MYFITNESS** पीनट बटर दोनो चिजो को अच्छे से मिलाए और किसी अच्छे काच के बाउल मे डाल के अपने पीनट बटर आइसक्रिम का आनंद उठाए ।
- अगर चाहे तो ऊपर से चोको चिप्स भी डाल सकते है ।



MYFITNESS
PEANUT BUTTER

www.myfitness.co.in



जस्ट लीक इट !



आप सिर्फ MYFITNESS PEANUT BUTTER
को सीधा चम्मच से भी खा सकते हैं





MYFITNESS "THANK YOU"

हमारा लक्ष्य अपने ग्राहकों को खुश करना है। यदि हम अपने लक्ष्य में सफल होते हैं, तो **MYFITNESS** पीनट बटर का जरूर प्रचार करें। अपनी प्रतिक्रिया दें और बदले में हम आपको उपहार के साथ सरप्राइज़ करेंगे।

प्रसन्न

चरण 1 : अपनी खरीद
वेबसाइट पर जाएं
amazon

चरण 2 : अपनी प्रतिक्रिया लिखें
और रेटिंग दें



चरण 3 : स्क्रीन शॉट ले कर हमें
इस नंबर पर WhatsApp
करे +91-7096699111



चरण 4 : बस।

अप्रसन्न 🙄

असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
और हम आपको 😊 खुश करने की
पूरी कोशिश करेंगे।

हमारी ग्राहक सहायता आपके
लिए मौजूद हैं।

E-mail : care@myfitness.co.in

WhatsApp / Phone : +91-7096699111

Timings :

सोम-शुक्र 10 am से 6 pm

शुभकामनाओं सहित
Team MYFITNESS